

नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए

I will shop in the market. (मैं बाजार में खरीदारी करूँगी।)

I will eat pizza in the market. (मैं बाजार में पिज्जा खाऊँगी।)

यहाँ पर मैंने दो वाक्य बोले हैं। दोनों ही वाक्यों से यह पता चलता है कि मैं **market** जा कर क्या करूँगी। अब अगर इन दोनों वाक्यों को एक का दिया जाए तो मुझे लगता है कि वह ज्यादा अच्छा और **effective** होगा।

I will shop and eat pizza in the market.

अब इस **sentence** में दोनों वाक्यों को एक शब्द **and** से जोड़ कर एक वाक्य बनाया है। इस वाक्य में **I will** जो की दो बार प्रयोग किया गया है उसे एक बार ही **use** किया गया है जिससे शब्दों के कम से कम प्रयोग से वाक्य को अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। और वाक्य के अर्थ में नहीं बदले। यही विशेषता है **conjunction** की।

तो अब यह तो समझ लिया कि **conjunctions** हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब यह भी देख लेते हैं कि **conjunctions** होते क्या हैं -

Conjunctions ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। इस तरह वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। (**Conjunction is the word or set of words that connects two words or sentences or used to coordinate words in the same clause. It shortens the sentences without a change in meaning or sense.**)

Conjunctions के सामान्यतः तीन भेद हैं -

Coordinating conjunctions

Correlative conjunctions

Subordinating conjunctions

COORDINATING CONJUNCTIONS

Coordinating conjunctions को **Coordinators** भी कहा जाता है। ऐसे शब्द दो समान **clauses** या वाक्यों को जोड़ता है। **English grammar** में 7 तरह के **Coordinating conjunctions** होते हैं। **Coordinating conjunctions** को याद रखने का सबसे आसान तरीका है - **FANBOYS**

F = for

A = and

N = nor

B = but

O = or

Y = yet

S = so

आइए कुछ **examples** देखते हैं -

1. He bought a book and a pen. (two words)
2. I forgot to bring my laptop and camera. (two words)
3. You may meet me at my home or at my office. (two phrases)
4. He always sits in the library or in the classroom. (two phrases)
5. I waited for him but he didn't come. (two clauses)
6. I asked him for help but he didn't help me. (two clauses)

अगर आप ध्यान दें तो **1st और 2nd sentences** में दो शब्दों को **and** से जोड़ा गया है। **3rd और 4th sentences** में **or** से दो **phrases** (वाक्यांशों) को और **5th और 6th sentences** में तो **clauses** (उपवाक्यों) को जोड़ा गया है।

अब एक बार जानते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग **Spoken English** में किस तरह से किया जाता है। इसे जानने के लिए आपको पहले इन शब्दों के अर्थ जानने की ज़रूरत है। इसको और अच्छे से समझने के लिए **coordinating conjunctions** को और चार भागों में **divide** कर दिया गया है -

अगर आपको हिंदी वाक्यों में और, एव अथवा तथा जैसे शब्दों का **use** करना हो तो इंग्लिश में इसके लिए **AND** का प्रयोग करेंगे। **And- is used when two similar clauses or points are made.**

जैसे -

The taxi stopped at the train station and two men got out of it. टैक्सी रेलवे स्टेशन पर रुकी और उसमें से दो आदमी निकले।

Tarun and Vishal are living in the same house. तरुण और विशाल एक ही घर में रहते हैं।

Tarun and Vishal are good friends. तरुण और विशाल अच्छे दोस्त हैं।

She didn't speak to anyone, and nobody spoke to her. उसने किसी से बात नहीं की, और किसी ने उससे बात नहीं की।

I ate lunch with Kate and Nancy. मैंने केट और नैन्सी के साथ दोपहर का खाना खाया।

अब अगर आपको वाक्य में कोई विकल्प दिखाना हो जैसे हिंदी में आप या, अथवा, अन्यथा जैसे शब्दों के प्रयोग करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में विकल्प को **show** करने के लिए **OR, OTHERWISE** का प्रयोग करते हैं। **Or- Is used to suggest an option or alternative**

जैसे -

You can do work or study. तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई।

Purchase a car or a motorcycle. तुम एक गाड़ी अथवा मोटरसाइकिल खरीद लो। .

Work hard otherwise you will fail. तुम परिश्रम करो अन्यथा असफल हो जाओगे.

Do you want a red one or a blue one? आ क्या लाल चाहते हैं या नीला ?

Don't tell John about his birthday party or you'll spoil the surprise. जॉन को उनके जन्मदिन की पार्टी के बारे में न बताएं अन्यथा आप आश्चर्य को खराब कर देंगे

अब यदि आपको अपने वाक्यों में एक विरोधाभास व्यक्त करना है - जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं रात को देर तक जगता हूँ पर वह सुबह जल्दी उठ जाती है। तो इस स्थिति में आप पर की इंग्लिश **BUT** करेंगे। **But- It is generally used to show a contrast between two clauses.**

I am a night owl, but she is an early bird.

You have been in office since morning but you didn't do anything. तुम सुबह से मैं कार्यालय हो परन्तु तुमने कुछ काम नहीं किया।

They rushed to the hospital, but they were too late. वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

I like living in the city but my brother prefers living in the village. मुझे शहर में रहना पसंद है लेकिन मेरा भाई गाँव में रहना पसंद करता है।

अब अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं और उसका परिणाम बता रहे हैं तो हिंदी में आप इसलिए, परिणामस्वरूप, फलतः, अतः, फलस्वरूप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जबकि **english** में इनके लिए **BUT, FOR, SO** और **YET** का प्रयोग करते हैं -

This song has been very popular, so I downloaded it. यह गीत बहुत लोकप्रिय रहा है, इसलिए मैंने इसे डाउनलोड किया।

Something fell in the water for I heard a splash. पानी में कुछ गिरा जिसके परिणामस्वरूप मैं **splash** की आवाज़ सुनी।

We listened eagerly, for he brought news of our families. हमने उत्सुकता से सुना, क्योंकि वह हमारे परिवारों की खबरें लाया था।

He performed very well, yet he didn't make the final cut. उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी वह अंतिम चरण में जगह नहीं बना पाए।

I've just eaten dinner so, I'm not hungry. मैं अभी रात का खाना खाया है इसलिए, मुझे भूख नहीं है।

Rules for using Coordinating Conjunctions

- 1) A comma is used before the coordinating conjunction only when it connects two independent clauses. Example:
I wanted to go to the movies, but Ravi preferred to laze at home.
- 2) When a coordinating conjunction is used to join two words/phrases, We do not use a comma. Example: I love to eat Italian and Chinese
- 3) When a coordinating conjunction is used with more than two items, the comma before the coordinating conjunction is optional. Example with comma: Manasi teaches English, German, and Science in school. Example without a comma: Manasi teaches English, German and Science in school.

आप **shopping** पर तो ज़रूर जाते होंगे। आपके साथ बच्चे भी जाते होंगे। **Toys section** देखते ही वह सभी **toys** लेने की जिद करने लगते हैं। उस समय आप कहते होंगे -या तो आप कार ले सकते हैं या फिर प्लेन।

या कभी आप खाने के लिए बाहर गए हैं और आप अपने **relative** से कहते हैं कि मैं ना तो **icecream** खाऊंगा और ना ही **pasta**.

इस तरह के **sentences** आप अपनी **daily life** में अक्सर **use** करते होंगे। इन वाक्यों में भी हमने **conjunctions** का प्रयोग किया है। इस तरह के **conjunctions** हमेशा **pair** में **use** होते हैं। इन्हें **Correlative conjunctions** कहते हैं।

दो शब्दों के ऐसे जोड़े जो वाक्यों को जोड़ने के लिए होते हैं, वाक्य का महत्व सामान ही होता है, **Correlative conjunctions** कहलाता है। (**Correlative conjunctions are pairs of conjunctions which work together to coordinate two items. They always appear in pairs. This means that you use them to link equivalent sentence elements.**)

either/or - इसका प्रयोग **positive** वाक्यों में होता है -

I want **either the cheesecake or the chocolate cake**. मुझे या तो चीज़केक चाहिए या चॉकलेट केक।

I will eat **either carrots or peas for dinner**. मैं रात के खाने के लिए गाजर या मटर खाऊंगा।

neither/nor - इसका प्रयोग नकारात्मक वाक्यों के लिए होता है -

Naina likes neither milk nor cream cake. नैना को न तो दूध पसंद है और न ही क्रीम केक।

I want neither the cheesecake nor the chocolate cake. मुझे न तो चीज़केक चाहिए और न ही चॉकलेट केक।

both/and -

We'll have both the cheesecake and the chocolate cake. हम चीज़केक और चॉकलेट केक दोनों लेंगे।

They have both a swimming pool and a tennis court in their backyard. उनके backyard में एक स्विमिंग पूल और एक टेनिस कोर्ट दोनों हैं।

not only/but also -

I'll eat them both - not only the cheesecake but also the chocolate cake. मैं उन दोनों को खाऊंगा - न केवल चीज़केक बल्कि चॉकलेट केक भी।

Not only is he a linguist but also a pianist. न केवल वह एक भाषाविद् है, बल्कि एक पियानोवादक भी है।

Not only did Naina make refreshment for Kush, but she also make dinner for him. न केवल नैना ने कुश के लिए नाश्ता बनाया, बल्कि उसके लिए रात का खाना भी बनाया।

whether/or -

I didn't know whether you'd want the cheesecake or the chocolate cake, so I got both. मुझे नहीं पता था कि आप चीज़केक चाहते थे या चॉकलेट केक, इसलिए मैं दोनों ले आया।

She is unsure about whether she should stay in New York or move to California. वह इस बारे में अनिश्चित है कि उसे न्यूयॉर्क में रहना चाहिए या कैलिफोर्निया जाना चाहिए।

Do you care whether we have noodles or rice for dinner? क्या आपको परवाह है कि क्या हमारे पास रात के खाने के लिए नूडल्स हैं या चावल?

अब आप बोलते समय या exams के समय इनका प्रयोग ध्यान से कीजियेगा। either के साथ or ही आएगा nor या also नहीं।

Subordinating conjunctions

अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ा जाएँ। पर कभी कभी आप इस तरह के वाक्य भी बोलते हैं - अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अथवा जब मैं वहां गया तो मैंने एक सुंदर इमारत

देखी। क्या आप जानते हैं कि इन वाक्यों को बोलते समय भी आपने **conjunctions** का प्रयोग किया है। हिंदी में अगर..... तो/ जब... तो। **English** में आप कुछ इस तरह बोलेंगे -

अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। --> **If you want to go there you can go.**

जब मैं वहां गया तो मैंने एक सुंदर इमारत देखी। --> **When I went there, I saw a beautiful building.**

इस तरह के conjunctions जो एक स्वतंत्र वाक्य और एक वाक्यांश को जोड़ते हैं उन्हें Subordinating conjunctions कहते हैं। (A subordinating conjunction is a word which joins together a dependent clause and an independent clause.)

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि **Independent** और **Dependent clause** क्या होते हैं -

Independent Clause

An independent clause शब्दों का वह समूह है जिसमें **subject** और **verb** दोनों ही होते हैं और यह अपने आप में पूरा होता है, एक **complete thought** को व्यक्त करता है जैसे -

I was late to work. मैं काम के लिए लेट था।

The paper does not specify which type of format it must be in. पेपर स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि यह किस प्रकार के प्रारूप में होना चाहिए।

ये दोनों वाक्य ही अपने आप में पूरे हैं और एक पूरा अर्थ प्रस्तुत करते हैं हैं। इसलिए ये **Independent Clause** हैं

Dependent Clause

Dependent clause में भी **subject** और **verb** होते हैं पर यह एक **complete** विचार प्रस्तुत नहीं करता है।

Dependent Clause एक पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता। अक्सर **Dependent Clause dependent marker word** से जुड़े होते हैं जैसे -

Because I woke up late this morning... (what happened?) क्योंकि मैं आज सुबह लेट से उठा (क्या हुआ?)

When we arrived in the office ... (what occurred?) जब हम ऑफिस पहुंचे (तो क्या हुआ?)

इस दोनों वाक्यों का अर्थ तो है पर वह पूरा नहीं है। इसका पूरा अर्थ जानने के लिए इसके साथ किसी अन्य वाक्य की जरूरत है जो इन वाक्य के अर्थ को पूरा करें।

उम्मीद है कि अब आपको **Independent Clause** और **Dependent Clause** थोड़ा सा समझ में आ गया होगा।

Subordinating conjunctions बहुत सारे हैं। कुछ इस प्रकार हैं -

Than, rather than, whether, as much as, whereas, that, whatever, which, whichever, after, as soon as, as long as, before, by the time, now that, once, since, till, until, when, whenever, while, though, although, even though, who, whoever, whom, whomever, whose, where, wherever, if, only if, unless, provided that, assuming that, even if, in case (that), lest, how, as though, as if, because, since, so that, in order (that), that, as ...

Since I am here, let me help you. चूँकि मैं यहाँ हूँ, मुझे आपकी सहायता करने दो।

He arrived after the bell rang. वह घंटी बजने के बाद पहुंचा।

Come home before dark. अंधेरे होने से पहले घर आ जाओ।

Because Rajesh has failed, he is very upset. क्योंकि राजेश विफल हो गया है, वह बहुत परेशान है।

Unless it rains, i will not go. जब तक कि बारिश न हो, मैं नहीं जाऊँगा।

इससे सम्बंधित कुछ नियम भी जान लेते हैं ताकि बोलते समय या लिखते समय आप इनमें गलतियां ना करें -\

1) For / As / Because / Since (क्योंकि, चूँकि)

जब भी वाक्य में “क्योंकि” या “चूँकि” का प्रयोग होता है तो इन चारों में से किसी भी एक का प्रयोग किया जा सकता है पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि “क्योंकि” या “चूँकि” के लिए “**because**” का प्रयोग केवल वाक्य के बीच में होता है और “**since**” का प्रयोग केवल वाक्य के शुरुआत में होता है।

Since/As/For I was unwell hence I didn't come. क्योंकि/ चूँकि मैं बीमार था, इसलिए मैं नहीं आया।

I didn't come, for I was unwell. मैं नहीं आया क्योंकि/चूँकि मैं बीमार था,

जब भी हम क्योंकि या चूँकि के लिए ‘**for**’ का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं तो ‘**for**’ से पहले **comma** लगाना ज़रूरी है।

2) Also/Even/Either/Too/As well (भी)

सभी पाँचों का एक ही अर्थ है - ‘भी’। प्रायः इन सभी का प्रयोग **positive sentences** में होता है।

Either का प्रयोग उन **negative** वाक्यों में किया जा सकता है जिनमें ‘भी’ का भाव प्रस्तुत हो। जैसे - मैं भी अच्छा नहीं हूँ, तुम भी पिज़्ज़ा नहीं खाते आदि।

Even का प्रयोग प्रायः **positive** और **negative** दोनों वाक्यों में होता है।

‘**Also**’ का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद और क्रिया से पहले होता है।

Too, As well और **Either** का प्रयोग वाक्य के अन्त में होता है।

‘Even’ का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है और ‘Even’ का प्रयोग **Interrogative sentences** में नहीं होता।
मैं भी अच्छा हूँ। (**Positive Sentence**) --> I am good too. / I am also good. / I am good as well. / Even I am good.

मैं भी अच्छा नहीं हूँ। (**Negative Sentence**) --> Even I am not good. / I am not good either.

क्या तुम भी वहाँ नहीं थे? (**Negative Interrogative Sentence**) --> Were you not there either?

(इस sentence में **not** है इसलिए या तो **even** का प्रयोग होगा या फिर **either** का, पर हमें पता है कि ‘Even’ का प्रयोग **Interrogative sentences** में नहीं होता इसलिए **either** का प्रयोग किया गया है।)

मैं भी पिज़्ज़ा पसन्द नहीं करता। (**Negative Sentence**) --> I don't like pizza either. / Even I don't like pizza.

वे भी मेरे साथ नहीं हैं। (**Negative Sentence**) --> They are not with me either. / Even they are not with me.

3) So/Hence/Henceforth/That's why/Therefore/That's the reason (इसलिए) जैसे -

मैं गया इसलिए तुम आये।

I went so you came./ I went hence you came./ I went henceforth you came./ I went that's why you came./ I went that's the reason you came.

4) As (जैसा, के तौर पर, के नाते)

मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। --> I am working here as a manager.

एक टीचर होने के नाते, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बच्चों को सफलता की राह दिखाऊँ। --> As a teacher, it's my duty that I guide my students to success.

5) As well as (साथ ही साथ)

हितेश काम करता है साथ ही साथ उसके माता पिता भी काम करते हैं। Hitesh is working as well as his parents are working.

अगर “as well as” दो subjects के बीच में आया तो **helping verb** पहले वाले subject के अनुसार ही लगेगी।

वह, और साथ ही उसके दोस्त, अच्छे हैं। --> He, as well as his friends, is good.

यहाँ **helping verb “is”** नहीं बल्कि “are” लगेगा। Rule के अनुसार **helping verb** पहले वाले subject के अनुसार ही लगेगी। पहला subject है “He” इसलिए “is” लगेगा।

मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। I, as well as my friends, am here.

वो साथ ही साथ उसके तीन भाई भी जा रहे हैं।

He, as well as his 3 brothers, is going.

6) As soon as / the moment (जैसे ही)

जैसे ही वो आया, मैं चला गया। As soon as he came, I left. or The moment he came, I left.

जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। Leave as soon as possible.

7) As far as (जहाँ तक)

जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके दो बच्चे हैं। As far as I know, he has two children.

जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। As far as I know, he is married.

8) Although / Though / Even if / Even though (यद्यपि, हालाँकि, भले ही)

Then also / even then / yet / still / however (फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी,)

अगर आप Although का प्रयोग करते हैं तो आपको Yet का प्रयोग करना ही होगा।

भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी उसे सब आता है। --> Even if he never went to school, then also he knows everything./ Though he never went to school, still he knows everything./ Although he never went to school, yet he knows everything.

(Although के साथ Yet का प्रयोग करना ही होगा।)

हालाँकि मैं गरीब हूँ, पर इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसे से मदद करने की कोशिश करूँगा। --> Although I am poor, yet I will try to help you with money.

हाँलाकि ये मैंने नहीं किया है, पर फिर भी आपका जो भी फैसला हो, मैं उसे मानूँगा। --> Though I haven't done it, still whatever you decide, I will accept.

हाँलाकि मैं बीमार था, तब भी मैंने काम किया। --> Even if I was unwell, then also I worked.

9) Such (इस तरह का, ऐसा)/ Such as (जैसे कि, उदाहरणतः) / in such a way (इस तरह से, ऐसे)

ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। Such people are selfish.

ऐसे बच्चे मुझे पसन्द नहीं। I don't like such children.

10) As if / As though (मानो; जैसे कि)

तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। You talk in such a way as if you know everything.

तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। You are talking in such a way as if I am your enemy.

11) "WH Family" used as a conjunction

What, That जो (सजीव व निर्जीव दोनों के लिए (for Living & Nonliving both))

Where जहाँ

Whom जिसे

Who जो (सजीव का) (living being)

Which जो (निर्जीव का) (non living)

When जब

How / The way जैसे, जिस तरह से

Whose जिसका (सजीव का) (living being)

Of Which जिसका (निर्जीव का) (non living)

With whom जिसके साथ

For whom जिसके लिए

From where जहाँ से

Example:

क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। **Did you hear what/that/which I said.**

मैं भी आया जहाँ से तुम आये। **Even, I came from where you came.**

जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वो यहाँ नहीं है। **For whom I did everything, is not here.**

क्या तुम बता सकते हो जिस तरह से तुम वहाँ पहुँचे? **Can you tell me how you reached there?**

राम, जो मेरे साथ था, मेरा दोस्त है। **Ram, who was with me, is my friend.**

पैन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है। **Pen which/that I had is not yours.**

राम वो है, जिसके पापा पुलिस में हैं। **Ram is the one whose father is in police.**

मैं वो हूँ, जिसका भाई तुम्हारे साथ था। **I am the one whose brother was with you.**

ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है। **This is the house, the roof of which is weak.**

ये वो कुर्सी है जिसके चारों पैर टूटे हुए हैं। **This is the chair, the all 4 legs of which are broken.**

उम्मीद है आपको यह **lesson** समझ आ गया होगा। हालांकि अभी भी बहुत से **conjunctions** हैं जिन्हें हमने इस **class** में **cover** नहीं किया है पर हम अपनी अगली **classes** में उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे। आज जो हमने **conjunctions** पढ़ें हैं उन सभी का प्रयोग हम अपनी **daily life** में करते हैं। आप भी इन्हें **use** करें।